



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 अग्रहायण, 1941 (श०)

संख्या- 997 राँची, मंगलवार, 3 दिसम्बर, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

26 नवम्बर, 2019

संख्या-1/पी०-104/2014 का.-9383-- परियोजना निदेशक, समेकित जनजातीय विकास प्राधिकार, लोहरदगा के पद पर पदस्थापित श्री शशि प्रकाश सिंह, भा.प्र.से. (झा:2017) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, चास, बोकारो के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें चास अनुमण्डल के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती हैं।

संख्या-1/पी०-104/2014 का.-9384-- निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, साहेबगंज के पद पर पदस्थापित श्री उत्कर्ष गुप्ता, भा०प्र०से० (झा:2017) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, बुण्डू, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें

बुण्डू अनुमण्डल के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती हैं।

2. उक्त अनुमण्डलों में पूर्व से पदस्थापित रा०प्र०से० के पदाधिकारी कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड में अपना योगदान करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।
